



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]  
No. 13]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 1978/पौष 16, 1899  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 1978/PAUSA 16, 1899

इस भाग में पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## गृह मंत्रालय

(कानूनी और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1978

सा० का० नि० 13 (अ) :— भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 4 के साथ पठित अधिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संख्या का नियतन) विनियम, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1978 है।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संख्या का नियतन) विनियम, 1966 की अनुसूची में "असम तथा मेघालय" शीर्षक तथा उसके अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

### असम तथा मेघालय

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. राज्य सरकारों के अधीन वरिष्ठ पद | 37 |
| असम                                |    |
| मुख्य वनपाल                        | 1  |
| अपर मुख्य वनपाल                    | 1  |
| वनपाल                              | 3  |
| वनपाल विकास                        | 1  |
| वनपाल आर्थिक सफ़िल                 | 1  |
| उप-वनपाल                           | 14 |

(29)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| उप-वनपाल पूर्वी असम वन्य जीवन प्रभाग | 1 |
| उप-वनपाल, असम राज्य चिड़ियाघर        | 1 |
| कार्य योजना अधिकारी                  | 2 |
| वन उपयोग अधिकारी                     | 2 |
| योजना अधिकारी                        | 1 |
| वनवृक्ष विज्ञानी                     | 1 |
| मेघालय                               |   |
| मुख्य वनपाल                          | 1 |
| भूमि संरक्षण निदेशक                  | 1 |
| उप-वनपाल                             | 3 |
| उप-वनपाल, प्रशिक्षण                  | 1 |
| कार्य योजना अधिकारी                  | 1 |
| योजना अधिकारी                        | 1 |

37

- केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पद उपर्युक्त 1 के 20 प्रतिशत के हिसाब से

44

- भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद
- सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद
- प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 15 प्रतिशत के हिसाब से
- छुट्टी रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 11 प्रतिशत के हिसाब से
- कनिष्ठ पद, उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से

6

|  |    |
|--|----|
| 8. प्रतिष्ठान रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 10 प्रतिष्ठान के हिसाब के . . . . . | 3  |
| सीनियर भर्ती वाले पद . . . . .   | 47 |
| प्रवर्धन वाले पद . . . . .   | 14 |
| कुल प्राधिकृत पद संख्या . . . . .  | 61 |

[सं० 16016/29/75-प्र०भा० से० (IV)-क०]

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel &amp; Administrative Reforms)

New Delhi, the 6th January, 1978

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the State Governments concerned, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "Assam and Meghalaya" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

## ASSAM AND MEGHALAYA

## 1. Senior posts under the State Governments.

## ASSAM:

|   |    |
|---|----|
| Chief Conservator of Forests . . . . .            | 1  |
| Additional Chief Conservator of Forests . . . . . | 1  |
| Conservator of Forests . . . . .                  | 3  |
| Conservator of Forests, Development . . . . .     | 1  |
| Conservator of Forests, Economic Circle . . . . . | 1  |
| Deputy Conservator of Forests . . . . .           | 14 |
| Deputy Conservator of Forests Eastern Assam       |    |
| Wild life Division . . . . .                      | 1  |
| Deputy Conservator of Forests, Assam State        |    |
| Zoo . . . . .                                     | 1  |
| Working Plan Officer . . . . .                    | 2  |
| Forests Utilisation Officer . . . . .             | 1  |
| Planning Officer . . . . .                        | 2  |
| Silviculturist . . . . .                          | 1  |

## MEGHALAYA

|   |   |
|---|---|
| Chief Conservator of Forests . . . . .            | 1 |
| Director of Soil Conservation . . . . .           | 1 |
| Deputy Conservator of Forests . . . . .           | 3 |
| Deputy Conservator of Forests, Training . . . . . | 1 |
| Working Plan Officer . . . . .                    | 1 |
| Planning Officer . . . . .                        | 1 |

37

## 2. Senior posts under the Central Government

@20% of 1 above . . . . .

7

44

3. Posts to be filled by promotion in accordance with rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 . . . . .

14

4. Posts to be filled by direct recruitment . . . . .

30

|   |   |
|---|---|
| 5. Deputation Reserve @15% of 4 above . . . . . | 5 |
| 6. Leave Reserve @11 % of 4 above . . . . .     | 3 |
| 7. Junior Posts @20% of 4 above . . . . .       | 6 |
| 8. Training Reserve @10% of 4 above . . . . .   | 3 |

DIRECT RECRUITMENT POSTS . . . . .

47

PROMOTION POSTS . . . . .

14

TOTAL AUTHORISED STRENGTH . . . . .

61

[No. 16016/29/75-AIS (IV)-A]

सा० भा० जि० 14 (अ) .— भारतीय वन सेवा (बेतन) नियम, 1968 के नियम 11 के साथ पठित ग्रन्थिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय वन सेवा (बेतन) नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (बेतन) संशोधन नियम, 1978 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (बेतन) नियम, 1968 की अनुसूची III में,

(i) "क—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा में समय बेतनमान से अधिक बेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन सारणी में असम तथा मेघालय के संयुक्त संघर्ष के सामने कालम 2 तथा 3 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:—

"असम तथा मेघालय"

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| मदों का विवरण                      |                 |
| मुख्य वनपाल . . . . .              | 2500-125/2-2750 |
| अपर मुख्य वनपाल . . . . .          | 2250-125/2-2250 |
| वनपाल . . . . .                    | 1800-100-2000   |
| वनपाल विकास . . . . .              | 1800-100-2000   |
| वनपाल, प्राथमिक सक्षिप्त . . . . . | 1800-100-2000   |
| निदेशक भूमि संरक्षण . . . . .      | 1800-100-2000   |

(ii) "ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के बरिष्ठ बेतनमान में बेतन वाले पद जिसमें समय बेतनमान में बेतन के प्रतिरिक्त विशेष बेतन वाले पद भी शामिल हैं" शीर्षक के अधीन सारणी में असम और मेघालय के संयुक्त संघर्ष के सामने वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:—

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| असम और मेघालय                         |  |
| उप-वनपाल                              |  |
| उप-वनपाल, पूर्वी असम वन्य जीवन प्रभाग |  |
| उप-वनपाल, असम राज्य विधियाँ घर        |  |
| उप-वनपाल, प्रशिक्षण                   |  |
| कार्य योजना अधिकारी                   |  |
| वन उपयोगिता अधिकारी                   |  |
| योजना अधिकारी                         |  |
| वन वन्य विज्ञानी                      |  |

[सं० 16016/29/75-प्र०भा० से० (iv)-अ]

पी० एन० कोहली, ईस्क अधिकारी

**G.S.R. 14(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, the Central Government, in consultation with the State Governments concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In Schedule III to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968 ;

(1) In the table below the heading 'A-Posts carrying pay above the time scale pay of the Indian Forest Service under the State Governments' for the existing entries, in columns 2 and 3 against the Joint Cadre of Assam and Meghalaya, the following entries respectively shall be substituted, namely:—

#### ASSAM AND MEGHALAYA

##### Particulars of Posts

|  |                 |
|--|-----------------|
| Chief Conservator of Forests . . .     | 2500-125/2-2750 |
| Additional Chief Conservator of Forest | 2250-125/2-2500 |
| Conservator of Forests . . . . .       | 1800-100-2000   |
| Conservator of Forests, Development    | 1800-100-2000   |

Conservator of Forests, Economic Circle . . . . . 1800-100-2000

Director of Soil Conservation . . . . . 1800-100-2000

(ii) in the table below heading "B-Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the time-scale", for the existing entries against the Joint Cadre of Assam and Meghalaya, the following entries respectively shall be substituted, namely:—

#### ASSAM AND MEGHALAYA

##### Particulars of the Posts

Deputy Conservator of Forests  
Deputy Conservator of Forests,  
Eastern Assam Wild Life Division  
Deputy Conservator of Forests,  
Assam State Zoo

Deputy Conservator of Forests,  
Training

Working Plan Officer  
Forest Utilisation Officer  
Planning Officer  
Silviculturist

[No. 16016/29/75-AIS (IV)-B]

P. N. KOHLI, Desk Officer.

